

# केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद

Email: [kvnewcantald@gmail.com](mailto:kvnewcantald@gmail.com) web-site: [www.kvnewcantald.org](http://www.kvnewcantald.org)

आवश्यकता है :- शिक्षकों / प्रशिक्षकों की (पूर्णतः अस्थायी/संविदा आधारित)

(अ) पूर्णतः अस्थायी/संविदा पर विभिन्न पदों हेतु पैनल तैयार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं | इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट [www.kvnewcantald.org](http://www.kvnewcantald.org) से डाउनलोड कर सकते हैं | अभ्यर्थी पूरी तरह भरे हुए मूल आवेदन पत्र एवं स्व प्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रतियों के साथ साक्षात्कार के दिन 8 बजे उपस्थित होंगे | ई-मेल से भेजे हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे |

अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अर्ह होंगे | साक्षात्कार की तिथि कोच, अनुदेशक, काउंसलर, डॉक्टर एवं नर्स के लिए 14-03-2018 एवं पी आर टी, टी जी टी, पी जी टी के लिए 19-03-2018 निर्धारित की गयी है |

नोट: अधिक जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाइट देखें

क्रम संख्या	पदनाम	न्यूनतम योग्यता (दी हुई या समकक्ष )
१	पी०जी०टी० (भूगोल , इतिहास , राजनीति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी )	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (अ) संबन्धित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री तथा (ब) बी०एड० या समकक्ष डिग्री
२	टी०जी०टी० (हिंदी , सा० विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (अ) संबन्धित विषय/विषय समूह तथा कुल अंकों में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या समकक्ष डिग्री (ब) बी०एड० या समकक्ष डिग्री (स) सी०बी०एस०ई० द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण
३	प्राथमिक शिक्षक	(अ) कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र या इंटरमीडिएट या या समकक्ष (ब) शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी०एड०) या आधारभूत शिक्षा में स्नातक (बी०एल०एड०) या (स) सी०बी०एस०ई० द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण
४	कंप्यूटर अनुदेशक	बी०ई०/बी०टेक०((क०वि०/आई०टी०)/बी०सी०ए०/एम०सी०ए०/एम०एस०सी० (सी०एस०/आई०टी०)/बी०एस०सी० (सी०एस०) या स्नातक/स्नातकोत्तर किसी भी विज्ञान विषय में या गणित सहित पी०जी०डी०सी०ए० या स्नातकोत्तर तथा "ए" लेवल / पी०जी०डी०सी०ए० (कम से कम 50% अंकों के साथ)
५	योग अनुदेशक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा स्नातक डिग्री (कम से कम 50% अंकों के साथ) तथा एक वर्ष की अवधि का योग प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र
६	खेल प्रशिक्षक	संबन्धित क्षेत्र में एन०एस०/एन०आई०एस० से डिग्री / डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ) या राष्ट्रीय/राज्य/अंतर विश्वविद्यालय

		खेलों में प्रतिभागिता   उपर्युक्त योगिताओं सहित बी०पी०एड०/ एम०पी०एड० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता
७	प्रशिक्षक (संगीत, कला एवं शिल्प)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबन्धित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ) संबन्धित क्षेत्र में उच्च स्तरीय दक्षता / विशेषज्ञता / अनुभव
८	स्टाफ नर्स / परिचारिका	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नर्सिंग में डिप्लोमा (कम से कम 50% अंकों के साथ) सहित वैध पंजीकरण  संबन्धित क्षेत्र में अनुभवी को प्राथमिकता
९	कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०ए०/ बी०एस०सी०(मनोविज्ञान ) (कम से कम 50% अंकों के साथ) तथा परामर्शन के क्षेत्र में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा और परामर्शन के क्षेत्र में अनुभव
१०	डॉक्टर	एम.बी. बी.एस. डिग्री

#### महत्वपूर्ण सूचना :-

०१. पद संबंधी अधिक विवरण हेतु विद्यालय की वेबसाइट [www.kvnewcanttald.org](http://www.kvnewcanttald.org) पर देखें |
०२. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने का द्विभाषीय कौशल एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग का कार्य साधक ज्ञान सभी पदों हेतु अनिवार्य है।
०३. सभी पद पूर्णतः अस्थायी है | जिनके साक्षात्कार हेतु कोई भी टी० ए० / डी- ए० एवं अन्य लाभ देय नहीं होगा |
०४. मानदेय तथा कार्यकाल केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होंगे | संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में सेवाएँ कभी भी समाप्त की जा सकती है |
०५. समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा अंक सूचियां (आवेदन के साथ संलग्न) साक्षात्कार के दिन जाँच हेतु अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए |
०६. समस्त पदों हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा 31-03-2018 से अनुरूप क्रमशः 18 से 65 वर्ष है |
०७. सी०टी०ई०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अभाव में सी०टी०ई०टी० रहित अभ्यर्थी भी टी०जी०टी० तथा प्राथमिक शिक्षक के पदों हेतु बुलाये जा सकते हैं |
०८. आवेदन पत्र के लिए विद्यालय की वेबसाइट [www.kvnewcanttald.org](http://www.kvnewcanttald.org) से डाउनलोड करें |

डॉ० बी०बी०सिंह  
प्राचार्य